

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय
रूपम कुमारी, वर्ग-दशम्, विषय-हिन्दी 🌳🌳
दिनांक-15-7-20.

N.C.E.R.T Syllabus

॥ अध्ययन- -सामग्री ॥

सुप्रभात बच्चों, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि
हम अपनी समस्याओं की चर्चा बढा-चढा कर
करते हैं। समस्याएँ आने पर हम दूसरों की
सहानुभूति चाहते हैं। लेकिन सहानुभूति या
दया से कोई समस्या हल नहीं होती।
दरअसल हम मुश्कलों का रोना रोते हैं
, समाधान नहीं ढूँढते।



आज की कक्षा में हम कार्यालयी पत्र लिखने
सीखेंगे - (कृष्ण)

कार्यालयी - पत्रः

आप विद्यालय की हिन्दी-परिषद के मंत्री हैं
। परिषद ने कवि-सम्मेलन के आयोजन का
निर्णय किया है । उसकी अध्यक्षता के लिए
हिन्दी विभाग के अध्यक्षता को आमंत्रित
करते हुए पत्र लिखिए ।

बालिका विद्यापीठ

लखीसराय

दिनांकः 15-7-20

आदरणीय श्री कौशल प्रसाद जी

सादर नमस्कार !

आशा है , आप सानंद होंगे ।

मैं बालिका विद्यापीठ, लखीसराय की
हिन्दी-परिषद का मंत्री हूँ । परिषद ने आगामी
15 जुलाई को विद्यालय सभागार में तुलसी-
जयंती मनवाने का निर्णय लिया है । परिषद
चाहती है कि उस कार्यक्रमों के अध्यक्षता
के रूप में सुशोभित हों । आप हिन्दी-साहित्य
के मर्मज्ञ हैं । हम चाहते हैं कि इस काव्य-
सम्मेलन के अध्यक्षता के बाग डोर को आप
सँभालें ।

विद्यालय के नियमानुसार आपके
आवागमन-व्यय के साथ मानदेय भेंट किया
जाएगा । कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ
होगा , जो दोपहर 1:00 बजे तक चलेगा
।कार्यक्रम के बाद भोजन जरूर ग्रहण करें
।स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निमंत्रण-पत्र

भेजा जाएगा । कृपया पधारने की स्वीकृति
देकर हमें कृतार्थ करें ।.

सधन्यवाद!

भवदीय

(अपना नाम) मंत्री ,

हिन्दी परिषद

बालिका विद्यापीठ

लखीसराय.

दी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें
तथा अपनी कॉपी में लिखें ।

गृहकार्य:. आपका विद्यालय 14 सितंबर 2020
को हिंदी दिवस मनाने जा रहा है अवसर पर

क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि नीरज कुमार निर्मल को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए आप टैगोर स्कूल चंडीगढ़ के प्राचार्य रोहित सक्सेना हैं ।

पत्र लिखने का अभ्यास जरूर करें । यह अभ्यास परीक्षोपयोगी है ।